

रिम जिम सावन बरस रहा है

रिम जिम सावन बरस रहा है, द्वार पे तेरे माँ,
कब से खड़ा हूँ आस लगाए, दृश दिखा दे माँ,
दूर करो माँ चिंता मेरी चिंतपूर्णी माँ,
पल पल तुझको याद करूँ मैं,
हर क्षण माँ फरियाद करूँ मैं,
तुझ सा नहीं है कोई दयालु कृपा कर दे माँ,
दूर करो माँ चिंता मेरी,
रिम जिम सावन.....

मैं दुखियारा गम का मारा,
इस दुनिया से हूँ अब हारा,
डोल रही है जीवन नैया पार लगा दे मां,
दूर करो माँ चिंता मेरी,
रिम जिम सावन.....

तुम तो हो माँ दया की सागर,
ये जग तो है दुख की गागर,
तू ही है बस एक सहारा, अपना बना ले मां,
दूर करो माँ चिंता मेरी,
रिम जिम सावन.....

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/28961/title/rim-jhim-saawan-baras-raha-hai>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |